

## अनुक्रमणिका

| क्रम     | प्रकरण का नाम                            | पृष्ठ |
|----------|------------------------------------------|-------|
| प्रकरण-1 | विषय प्रवेश                              |       |
| 1.1      | संगीत का उद्भव एवं विकास                 | 01    |
| 1.2      | संगीत के विभिन्न प्रकार                  | 12    |
| 1.2.1    | शास्त्रीय संगीत                          | 12    |
| 1.2.2    | सैद्धांतिक शास्त्रीय संगीत               | 13    |
| 1.2.3    | व्यवहारिक शास्त्रीय संगीत                | 13    |
| 1.2.4    | भाव संगीत                                | 13    |
| 1.3      | नाद                                      | 14    |
| 1.3.1    | नाद स्थान                                | 29    |
| 1.3.2    | नादब्रह्म और सात स्वरों का आविर्भाव      | 30    |
| 1.4      | ध्वनि                                    | 34    |
| 1.5      | शास्त्रीय संगीत की गायन शैलियाँ          | 36    |
| 1.5.1    | प्रबन्ध के धातु                          | 38    |
| 1.5.2    | प्रबन्ध के अंग                           | 39    |
| 1.5.3    | प्रबन्ध के प्रकार                        | 40    |
| 1.5.4    | ध्रुपद गायन की रचना एवं शैलियाँ          | 41    |
| 1.5.5    | खयाल गायन शैली का उद्भव, विकास एवं विवरण | 42    |
| 1.5.6    | खयाल अंग में प्रयुक्त ताल                | 49    |
| 1.5.7    | तराना                                    | 50    |
| 1.5.8    | चतुरंग                                   | 51    |

| क्रम     | प्रकरण का नाम                                           | पृष्ठ |
|----------|---------------------------------------------------------|-------|
|          | 1.5.9 लक्षण गीत                                         | 51    |
|          | 1.5.10 ठुमरी                                            | 52    |
| प्रकरण-2 | उत्तर हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत पद्धति               |       |
| 2.1      | श्रुति                                                  | 55    |
|          | 2.1.1 श्रुति की परिभाषाएँ                               | 56    |
|          | 2.1.2 श्रुति – स्थूल रूप                                | 59    |
|          | 2.1.3 श्रुति में साम्य                                  | 61    |
|          | 2.1.4 श्रुति संख्या                                     | 62    |
|          | 2.1.5 श्रुति में असाम्य                                 | 64    |
|          | 2.1.6 श्रुति जाति                                       | 65    |
|          | 2.1.7 श्रुति का वैज्ञानिक विश्लेषण                      | 69    |
|          | 2.1.8 प्राचीन ग्रंथकारों की समान श्रुतियाँ              | 72    |
| 2.2      | स्वर                                                    | 74    |
|          | 2.2.1 स्वर का प्राकृतिक उद्भव                           | 74    |
|          | 2.2.2 स्वर और उसके पर्याय                               | 77    |
|          | 2.2.3 स्वर की परिभाषा तथा उनका संक्षिप्त विश्लेषण       | 79    |
|          | 2.2.4 स्वर सम्बन्धी अन्य दृष्टिकोण                      | 83    |
| 2.3      | स्वरों की उत्पत्ति, उद्भव स्थान के संदर्भ में मान्यताएँ | 87    |
|          | 2.3.1 सामवेद के स्वर और उनके नाम                        | 92    |
|          | 2.3.2 स्वर के तीन स्थान                                 | 94    |

| क्रम  | प्रकरण का नाम                              | पृष्ठ |
|-------|--------------------------------------------|-------|
| 2.3.3 | स्वरों का प्रियत्व और जगत् का सामोपजीवित्व |       |
|       | स्वर और जीवों का सम्बन्ध                   | 94    |
| 2.3.4 | स्वरों की तारता का निर्धारण                | 95    |
| 2.3.5 | भिन्न-भिन्न स्वरों का उत्पत्ति-स्थान और    |       |
|       | उनका नामकरण                                | 97    |
| 2.3.6 | स्वरों के मुख, भुजा                        | 100   |
| 2.3.7 | स्वर शारीरिक स्थान                         | 103   |
| 2.3.8 | स्वर लक्षण                                 | 104   |
| 2.4   | स्वरों की प्रकृति, स्वभाव एवम् रंग         | 105   |
| 2.5   | स्वरों में निहित सौन्दर्य                  | 111   |
| 2.5.1 | स्वरों की उपयोगिता                         | 112   |
| 2.5.2 | वर्ष और दिवस की ऋतुओं का मेल               | 117   |
| 2.5.3 | षड्ज स्वर में निहित सूर्यशक्ति             | 122   |
| 2.5.4 | स्वर अलंकार                                | 128   |
| 2.5.5 | वादी स्वरों का राग के समय के साथ सम्बन्ध   | 129   |
| 2.5.6 | पूर्वांग और उत्तरांग का क्षेत्र विस्तार    | 129   |
| 2.5.7 | स्वर लगाव                                  | 130   |
| 2.5.8 | स्वर या आवाज़ का लगाव                      | 131   |
| 2.5.9 | स्वर लेखन पद्धति                           | 131   |
| 2.6   | सप्तक                                      | 132   |
| 2.6.1 | संगीत में सप्तक का विकास                   | 133   |

| क्रम     | प्रकरण का नाम                                    | पृष्ठ |
|----------|--------------------------------------------------|-------|
| प्रकरण-3 | थाट और उनके जन्य राग                             | 141   |
| 3.1      | भारत में संगीत की पद्धति                         | 142   |
| 3.1.1    | शिवमत                                            | 142   |
| 3.1.2    | हनुमानमत                                         | 144   |
| 3.1.3    | रार्गाणव ग्रन्थमत                                | 144   |
| 3.1.4    | कल्लीनाथ ग्रन्थमत                                | 145   |
| 3.1.5    | भरतमत                                            | 146   |
| 3.1.6    | मुहमद रजा मत                                     | 146   |
| 3.2      | थाट                                              | 152   |
| 3.2.1    | ठाठों में समावित रागों की सूचि                   | 154   |
| 3.3      | थाट वर्गीकरण                                     | 157   |
| 3.3.1    | थाट-रचना-विधि                                    | 157   |
| 3.4      | पंडित व्यंकटमुखी के ७२ थाट                       | 159   |
| 3.4.1    | ७२ थाट के नाम                                    | 161   |
| 3.4.2    | कर्नाटक पद्धति के ७२ मेल                         | 162   |
| 3.5      | ३२ थाट                                           | 165   |
| 3.6      | पंडित विष्णु नारायण भातखंडेजी के १० थाट वर्गीकरण | 168   |
| 3.7      | थाट के नियम                                      | 173   |
| 3.8      | मेल वर्गीकरण                                     | 174   |
| 3.9      | एक थाट से 484 रागों की उत्पत्ति                  | 178   |

| क्रम     | प्रकरण का नाम                                     | पृष्ठ |
|----------|---------------------------------------------------|-------|
| 3.10     | राग और राग उत्पत्ति                               | 187   |
| 3.10.1   | राग                                               | 187   |
| 3.10.2   | हिन्दुस्तानी संगीत में 'राग' की उत्पत्ति और विकास | 188   |
| 3.10.3   | संगीतोत्पत्ति का कारण                             | 190   |
| 3.10.4   | राग की शास्त्रोक्त व्याख्या                       | 192   |
| 3.10.5   | राग की प्रकृति                                    | 194   |
| 3.10.6   | राग का गायन समय                                   | 196   |
| 3.10.7   | राग भेद                                           | 197   |
| 3.10.8   | रागों का समय विभाजन                               | 198   |
| 3.10.9   | स्वर और समय की दृष्टि से रागों के तीन वर्ग        | 199   |
| 3.10.10  | अध्वदर्शक स्वर मध्यम का महत्व                     | 204   |
| 3.10.11  | रागों का समयचक्र                                  | 206   |
| 3.10.12  | राग विस्तार                                       | 206   |
| 3.10.13  | राग चयन                                           | 207   |
| 3.10.14  | दस वीध राग लक्षण                                  | 207   |
| 3.10.15  | राग के नियम                                       | 213   |
| प्रकरण-4 | मारवा थाट तथा उसके जन्य रागों का अध्ययन           | 214   |
| 4.1      | मारवा थाट                                         | 214   |
| 4.2      | मारवा थाट तथा राग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि           | 221   |
| 4.3      | मारवा तथा उसके समप्रकृतिक राग                     | 227   |
| 4.4      | मारवा थाट के रागों का वर्णन                       | 235   |

| क्रम     | प्रकरण का नाम                                     | पृष्ठ |
|----------|---------------------------------------------------|-------|
| 4.4.1    | मारवा थाट के प्रचलित रागों का अध्ययन एवं बंदिशें  | 235   |
| 4.4.1.1  | राग : मारवा                                       | 235   |
| 4.4.1.2  | राग : जैत                                         | 240   |
| 4.4.1.3  | राग : पूरिया                                      | 249   |
| 4.4.1.4  | राग : पूरिया कल्याण                               | 256   |
| 4.4.1.5  | राग : भटियार                                      | 262   |
| 4.4.1.6  | राग : ललित                                        | 271   |
| 4.4.1.7  | राग : विभास                                       | 282   |
| 4.4.1.8  | राग : सोहनी                                       | 289   |
| 4.4.2    | मारवा थाट के अप्रचलित रागों का अध्ययन एवं बंदिशें | 296   |
| 4.4.2.1  | राग : पंचम                                        | 296   |
| 4.4.2.2  | राग : पंचम मारवा                                  | 302   |
| 4.4.2.3  | राग : भंखार                                       | 306   |
| 4.4.2.4  | राग : मार्ग हिंडोल                                | 311   |
| 4.4.2.5  | राग : मालीन                                       | 312   |
| 4.4.2.6  | राग : मालीगौरा                                    | 315   |
| 4.4.2.7  | राग : रत्नदीप                                     | 324   |
| 4.4.2.8  | राग : ललित पंचम                                   | 326   |
| 4.4.2.9  | राग : वराटी                                       | 332   |
| 4.4.2.10 | राग : साजगिरी                                     | 340   |
| 4.4.2.11 | राग : मृगनयनी                                     | 344   |
| 4.4.2.12 | राग : धन्यधैवत                                    | 347   |

| क्रम      | प्रकरण का नाम                                                                       | पृष्ठ |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| प्रकरण -5 | उपसंहार                                                                             | 351   |
| ❖         | संदर्भग्रंथ सूचि                                                                    | 356   |
| शोध-लेख-1 | ISSN-2319-9318 Vidyawarta pg. 165-167<br>भारतीय संगीत में थाट की संकल्पना           |       |
| शोध-लेख-2 | ISSN-2394-5303 Printing Area pg. 154-157<br>मारवा थाट एवं राग : एक पारंपारिक अध्ययन |       |